

स्पान्सरशिप अंडरटेकिंगज़ (Undertakings) और स्पान्सरशिप ऋण

स्पान्सरशिप अंडरटेकिंग क्या है?

जब एक कनाडाई नागरिक या परमानेंट रेज़िडेंट, परमानेंट रेज़िडेंट बनने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को स्पान्सर करने के लिए आवेदन करता है, तो उनके लिए "स्पान्सरशिप अंडरटेकिंग" नामक किसी चीज़ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह एक वादा है जो एक स्पान्सर इमीग्रेशन, रेफ्यूजीज़ और सिटिज़नशिप कैनेडा (IRCC) से करता है कि वे उस व्यक्ति, जिसे वे एक निश्चित अवधि के लिए स्पान्सर कर रहे हैं, को आर्थिक रूप से सहारा देंगे।

अंडरटेकिंग कितने समय तक चलती है?

स्पान्सर की वित्तीय जिम्मेदारी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से स्पान्सर किया गया व्यक्ति परमानेंट रेज़िडेंट (PR) बन जाता है। यह कितने समय तक चलेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे किसे स्पान्सर कर रहे हैं।

नोट: क्यूबेक के आवेदकों के लिए अंडरटेकिंग की लंबाई थोड़ी अलग है। अन्य सभी के लिए, अंडरटेकिंग की लंबाई है:

- पति या पत्नी, कॉमन-लॉ पार्टनर, कौजुगल पार्टनर: 3 साल
- आश्रित बच्चे (जैविक या गोद लिए गए) या 22 वर्ष से कम उम्र के कैनेडा में गोद लिए जाने वाले बच्चे: 10 वर्ष या जब तक वे 25 वर्ष के नहीं हो जाते (जो भी पहले आए)
- 22 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आश्रित बच्चे: 3 साल
- माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी: 20 साल
- कोई अन्य रिश्तेदार: 10 साल

यदि आप निम्न स्थितियों से गुजरते हैं तो भी अंडरटेकिंग जारी रहेगी:

- स्पान्सर किया जा रहा व्यक्ति कैंनेडा का नागरिक बन जाता है
- स्पान्सर किए गए व्यक्ति के साथ संबंध बदल जाता है (उदाहरण के लिए, तलाक या सेपरेशन)
- स्पान्सर अपनी नौकरी खो देता है या कर्ज में डूब जाता है
- व्यक्ति के PR बनने के बाद स्पान्सर अपने स्पान्सरशिप आवेदन को वापस लेने की कोशिश करता है
- दुर्व्यवहार के मामलों में भी अंडरटेकिंग जारी रहेगी। जहां स्पान्सर किए गए व्यक्ति द्वारा स्पान्सर करने वाले के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और रिश्ता टूट जाता है, तो स्पान्सर (जो दुर्व्यवहार का शिकार हो सकता है) के लिए अंडरटेकिंग जारी रहेगी। इसे रद्द नहीं किया जा सकता अगर व्यक्ति के पास पहले से ही PR स्टेटस है।

उदाहरण:

ध्रुव अपनी पत्नी प्रीति को कैंनेडा आने के लिए स्पान्सर कर रहा है। उन्होंने तीन साल तक आर्थिक रूप से उसकी मदद करने का वादा किया है। दो साल बाद ध्रुव और प्रीति का तलाक हो जाता है। ध्रुव के लिए अभी भी एक और वर्ष के लिए प्रीति को आर्थिक रूप से सहायता देना जारी रखना अनिवार्य है।

आपके लिए अपने स्पान्सर से वित्तीय सहायता मांगना कानूनी रूप से आवश्यक है

यदि आपका स्पान्सर आपको वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है, तो आप सोशल असिस्टेंस या वेलफेयर (उदाहरण के लिए, ओंटैरियो वर्क्स) के लिए सरकार को आवेदन करने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। सोशल असिस्टेंस के पात्र होने के लिए, आपको सबसे पहले अपने पास मौजूद सभी वित्तीय संसाधनों को देखना होगा। इसमें वह सहायता शामिल है जिसका आपके स्पान्सर ने आपसे वादा किया था। यदि स्पान्सर आपकी सहायता नहीं कर रहा है तो आपके लिए स्पान्सर से वित्तीय सहायता की मांग करना अनिवार्य है। यदि आपका स्पान्सर अपना वादा नहीं निभा रहा है, तो आपको सोशल असिस्टेंस (उदाहरण: वेलफेयर) के लिए अस्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आप सोशल असिस्टेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्पान्सर के बारे में जानकारी देनी भी होगी।

कुछ स्थितियों में, संभव है कि आपको अपने स्पान्सर से वित्तीय सहायता ना माँगनी पड़े

इन स्थितियों के उदाहरण:

- यदि स्पान्सर सोशल असिस्टेंस प्राप्त कर रहा है
- यदि स्पान्सर की मौत हो जाती है
- यदि पारिवारिक हिंसा होती है और स्पान्सर से सहायता की मांग करना आपके लिए सुरक्षित नहीं है

क्या अंडरटेकिंग रद्द की जा सकती है?

अंडरटेकिंग को केवल IRCC के परमानेंट रेज़िडेंट (PR) आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले ही रद्द किया जा सकता है। स्पान्सर अंडरटेकिंग केवल तभी वापस ले सकता है यदि IRCC उसे वापस लेने को मंजूरी दे।

जिस व्यक्ति को आपने स्पान्सर किया है, उसके परमानेंट रेज़िडेंट (PR) बनने के बाद आप किसी अंडरटेकिंग को रद्द नहीं कर सकते।

स्पान्सरशिप ऋण

यदि स्पान्सरशिप अंडरटेकिंग अवधि के दौरान स्पान्सर किए गए व्यक्ति को सोशल असिस्टेंस प्राप्त होती है, तो स्पान्सर सरकार को इस धन का देनदार होगा।

यदि स्पान्सर के पास स्पान्सरशिप ऋण है तो:

- जब तक कर्ज का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक वे परिवार के किसी अन्य सदस्य को स्पान्सर नहीं कर पाएंगे
- सरकार पैसा वसूलना शुरू कर देगी। वे स्पान्सर को अदालत में ले जा सकते हैं या वसूली संबंधी गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं। यह प्रक्रिया वैसी ही होगी जब क्रेडिट कार्ड बिल या मॉर्गिज का भुगतान नहीं किया गया हो। वे आप की तरफ बकाया टैक्स छूटों से भी ऋण वसूल कर सकते हैं।

क्या स्पान्सर्शिप ऋण माफ किया जा सकता है?

स्पान्सर्शिप ऋण को माफ नहीं किया जा सकता है। इसे केवल स्थगित किया जा सकता है।

स्पान्सर्शिप ऋण वसूली का स्थगन

ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनमें सरकार स्पान्सर से ऋण की वसूली को स्थगित कर देगी।

इन परिस्थितियों के कुछ उदाहरण हैं:

- स्पान्सर अक्षम है (उनके पास वित्त की अपनी देखभाल का प्रबंधन करने की क्षमता नहीं है)
- स्पान्सर दिवालिया है
- स्पान्सर असाधारण परिस्थितियों से गुजर रहा है
- स्पान्सर, स्पान्सर किए गए व्यक्ति से पारिवारिक हिंसा का सामना कर रहा है